

Affle/SE/FR/Q4/2024-25

May 12, 2025

То

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-l, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Scrip Code: 542752	Symbol: AFFLE

<u>Sub: Intimation of Publication of audited Consolidated Financial Results for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2025</u>

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published audited Consolidated Financial Results for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2025. Please find enclosed a copy of the advertisements published in the following newspapers on Monday, May 12, 2025.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper All Editions) and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper Delhi Edition)

Submitted for your information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully, For Affle 3i Limited (Formerly known as Affle (India) Limited)

Thendhurg

Parmita Choudhury Company Secretary & Compliance officer

Encl: As above

Affle 3i Limited

(Formerly known as Affle (India) Limited) **Regd. Office** | A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi-110016 **Communication Office** | 8th floor, Unitech Commercial Tower - 2, Sector - 45, Gurugram - 122003, Haryana (P) 0124-4598749 (W) <u>www.affle.com</u>; CIN: L65990DL1994PLC408172

FINANCIAL EXPRESS

12 NATION

UAPA cae: SIA raids in 20 Kashmir locations

BASHAARAT MASOOD Srinagar, May 11

THE STATE INVESTIGATION

Agency (SIA) Sunday conducted raids at multiple locations in South Kashmir in a case related to sharing of "sensitive and strategic information about security forces and vital installations" through messaging apps, the agency said.

The agency that is an equivalent of the National Investigation Agency (NIA) in Jammu and Kashmir has detained several persons and claimed to have seized incriminating material.

"J&K police are keeping a surveillance on the terror associates and over ground workers (OGW) working in Kashmir," SIA said in an official release. "Technical intelligence indicated that a host of sleeper cells in Kashmir were in direct contact with their handlers based in Pakistan and were involved in conveying sensitive and strategic information about security forces and vital installations via messaging apps including but not limited to WhatsApp, Telegram, Signal and so on."



A security vehicle is seen during raids conducted by the SIA across multiple locations, in Kulgam district on Sunday

The SIA was set up in 2021 as the nodal agency for "coordinating with the NIA and other central agencies and shall take such other measures as may be necessary for speedy and effective investigation and prosecution of terrorism related cases".

On Sunday morning, the investigating agency raided 20 different locations in four districts of south Kashmir - Pulwama, Shopian, Kulgam and Anantnag – and conducted searches in a case registered under various sections of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967. "These terror associates

were also involved in online radical propaganda on the behest of terrorist commanders of Lashkar-e- Taiba and Jaish-e- Muhammad, impinging upon the national security

and integrity," the SIA said. "Preliminary investigation has clearly brought out that these entities are actively engaged in terrorist conspiracy, propagating and furthering anti-India narratives aimed not only at challenging the sovereignty and territorial integrity of India but also at inciting disaffection, public disorder, and communal hatred," it said.



drawn by Delhi.

four decades of cross-border terrorism, Pakistan had violated the fundamental principle of the pact that was concluded "in a spirit of goodwill". It was felt that Pakistan cannot continue to not feel the heat because "blood and water cannot flow together"post-Pahalgam.

In the military vector, India had a playbook from the 2016 Uri surgical strike and 2019 Balakot air strike. Sources said the same thinking of "imposing costs" was there, but the government didn't want to play the same cards - to retain the surprise element.

tive, the main objectives since the April 22 Pahalgam terror So, targets and techniques were chosen carefully, which attack have been achieved: political, military and psychoincluded the nine terror localogical. The overarching thinktions in Pakistan and PoK. The ing within the government was three terror sites of Muridke, that there had to be a "cost" to Bahawalpur and Muzaffarabad Pakistan's actions that had led were not just high-value terrorist targets, but were also "symthem to undertake a cross-borbolic" since they represented der terrorist act killing 26 peo-Taiba and Jaish-e-Mohammed. "The message was clear: we will hit you, and we will hit you in your headquarters, not in some camps," the sources said, underlining the new red line

with the three wars and the last

And, the psychological vector, the source said, was a combination of political and military. "There were two elements to this strategy: raise costs on Pakistan, and that no place is safe for you (terrorists)," sources said.

FROM THE FRONT PAGE

India, sources said, had been clear about its intention to hit terrorists ever since the Pahalgam terror attack. From Prime Minister Modi to External Affairs Minister Jaishankar to NSA Ajit Doval — they had all indicated this to their counterparts in their phone conversations between April 22 and May 7. And, after the Indian armed forces struck at nine locations on May 7 between 1 am and 1.30 am, the Indian DGMO called up his Pakistani counterpart and told him that India had hit the "carefully chosen" terror targets and that they had not targeted military targets. And finally, a message was the headquarters of Lashkar-e- sent that if Pakistan wants to talk, India is willing to engage.

Pak sought US help after PM **Retail investors** going strong

THE MAIN CONCERN is the large build-up particularly on the expiry day, despite an additional extreme loss margin of 2%. The revised guidelines for F&O segment were introduced in November 20, 2024 and implemented in phases till February.

In its July 2024 consultation paper, the regulator had noted that for FY 2023-24, 9.2 million unique individuals and proprietorship firms traded in index derivatives segment of NSE and cumulatively incurred a tradingloss of ₹51,689 crore. Of these, just 1.4 million investors made net profit, meaning approximately 85 out of 100 made a net trading loss.

After this, Sebi had come up with a slew of measures in October due to change in markets with increased retail participation, offering of short tenure index options contracts, and heightened speculative trading volumes in index derivatives on expiry day. These included upfront collection of option premium from options buyer, removal of calendarspread treatment on the expiry day, intra-day monitoring of position limits, contract size for index derivatives, ratio-



nalisation of weekly index derivatives products and increase in tail risk coverage on the day of options expiry.

According to UR Bhatt, director at Alphaniti Fintech, retail investors that had entered the derivatives market during Covid have graduated to a larger ticket size so the definition of retail needs to be revised.

Vinit Bolinjkar, head of research at Ventura Securities, said that Sebi does not want individual investors to lose money to large international players but risk-taking is the nature of the investment community. He added that higher transaction costs, eligibility based on net worth of the individual, and higher margins are some of the things that can be done.

Gensol probe to accelerate

Affle 3i Limited (formerly known as Affle (India) Limited)

Registered Office | A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016

warned of hard retaliation

(P) 0124-4598749 (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, CIN: L65990DL1994PLC408172 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

		(Amount in INR million, unless otherwise stated						
	Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024			
	Total income	6,211.61	5,334.89	23,600.73	19,000.15			
	Profit before exceptional items and tax	1,238.50	1,001.50	4,676.37	3,267.96			
	Net profit for the periods / years	1,030.65	874.91	3,818.69	2,972.63			
	Total comprehensive income for the periods / years	1,063.42	890.08	4,143.87	2,972.11			
2	Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	280.71	280.21	280.71	280.21			
	Other equity for the year	() () () () () () () () () ()	×.	29,183.86	24,700.19			
	Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)							
	Basic:	7.35	6.45	27.23	21.91			
	Diluted:	7.34	6.45	27.19	21.91			

Notes :

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 10, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results

Key standalone financial information:

Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Total income	2,041.52	1,711.48	7,770.28	6,023.10
Net profit for the periods / years	308.35	236.94	1,154.94	759.57
Total comprehensive income for the periods / years	307.42	236.99	1,153.23	758.89

The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended

The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of stock exchange www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com. Scan the QR code below to view the results on the website of the Company.



By Order of the Board For Affle 3i Limited Sd/-

Place : Gurugram Date : May 10, 2025

Anuj Khanna Sohum Chairperson, Managing Director & Chief Executive Officer

ASHIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

ASHIKA CIN: L67120WB1994PLC062159 Trinity, 226/1, A.J.C Bose Road, 7th Floor, Kolkata-700020 Tel: (033) 40102500; Fax: (033) 40102543 Email: secretarial@ashikagroup.com; Website: www.ashikagroup.com

Extract of Statement of Annual Audited Financial Results

SI.	1.144.2011/07/07 10:10:10	9	St	andalone		Consolidated
No.	Particulars	Quarte	Year Ended			
1000		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	Ended 31.03.2024	31.03.2025
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	237.80	336.43	429.03	1854.74	429.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(7027.93)	(861.04)	(6662.39)	1276.14	(6668.37)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(7027.93)	(861.04)	(6662.39)	1276.14	(6668.37)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(5386.61)	(641.29)	(5141.89)	1070.38	(5147.87)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5386.29)	(637.34)	(5142.24)	1072.27	(5148.22)
6	Equity Share Capital	3310.95	1188.17	3310.95	1188.17	3310.95
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year			40,714.63	5619.89	40711.58
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (*not annualized) Basic in Rs : (*not Anualised) Diluted in Rs : (*not Anualised)	*(26.99) *(26.99)	*(5.40) *(5.40)	(25.76) (25.76)	9.01 9.01	(25.78) (25.78)

ple.all tourists barring one.

lala, Rawalpindi.

approached the US.

to talk to India.

early on as well.

Pakistan Army chief General

Asim Munir and US Secretary of

State and National Security

Advisor Marco Rubio, where

they showed their willingness

affairs minister S Jaishankar

who said India was willing to

talk, and that was conveyed

tor General of Military Opera-

tions reached out to the Indian

DGMO around 1 pm on May

10, and a call was set up at 3.30

pm. And they decided to stop

From the Indian perspec-

firing and military action.

As a result, Pakistan's Direc-

Rubio called up external

So, in the political vector, this led to a series of diplomatic measures including the most significant one of keeping the Indus Waters Treaty in abeyance. Sources said that

The brief and the message to the entire world, who called Indian leaders, was straightforward:"If they fire at us, we fire at them. If they stop, we will stop."

Congress wants answers on US role

NOTING THAT EVENTS have changed swiftly in the last 24 hours, he said, "We were all surprised after the announcement of ceasefire was made by the US President through social media." "An attempt was made to internationalise the issues between India and Pakistan. This is for the first time this has happened," he said, asserting that the government must clarify while taking the nation and all parties into confidence.

"What I am saying is that the fact that the US unilaterally

we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

Folio No.

SGL115810

SGL117110

SGL111258

Name of Shareholder

Neeta Jayesh Thakkar

Ramchandra Mohite

Jt1: Jayesh Harish Thakkar

Jt1: Dilip Ramchandra Mohite

Mr. Paresh Trikamlal Shah

👹 vedanta

announces a ceasefire between two countries so far away. It is unprecedented, has not happened before and they have tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented.

"To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what the neutral site is and who should meet," he said, referring to the US statements. On Sunday, government sources asserted that India will never accept mediation in the Kashmir issue and the only mat-

VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394 Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093

Phone No.: +91-22 6643 4500; Fax: +91-22 6643 4530

Website: www.vedantalimited.com; Email ID: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder

have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice

Shares

400

400

800

ter to discuss is Pakistan returning the territory which is under its illegal occupation.

Pilot said PoK is part of India and we have resolved in 1994 to take back Pakistan-occupied Kashmir (PoK). "Has there been a change in that stand? What are the conditions, what are the circumstances, what are the issues on which they will talk and who is a third country to dictate to India- where and when we should meet and how we should meet, that is a question that needs to be answered,"he said.

THE MARKETS REGULATOR had recently appointed Raju and Prasad Chartered Accountants to do forensic audit of Gensol's financial statements between FY22 and FY25.

"We are discussing the possibility of a joint investigation. If an inter-departmental team is formed, it will have members from all the agencies," the official said."Sebi's investigation is progressing well, and they might prepare a groundwork for other agencies. The market regulator might have seized key documents which will be required by other agencies to prove fund diversions and fraud allegations. It's only appropriate for the investigating agencies to join hands," the official said.

The registrar of companies (RoC) is currently probing Gensol and BluSmart for the corporate governance violations under Section 210 of the Companies Act, which gives powers to the central government to probe into the affairs of a company.

Last month, the ED raided the offices of Gensol in two states under the provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"The MCA, ED, and NFRA come under the same minister (minster for finance and corporate affairs), and since there's going to be work overlap, a multi-disciplinary team of experts/inspectors could reduce the investigation time," the official said.

The MCA is likely to submit report in three months while

Place: New Delhi Date: May 12, 2025

S.

No.

3

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

То

868073319

868204327

865985907

Distinctive Nos.

From

868072920

868203928

865985108

lenders. In its 29-page order, Sebi also revealed that funds availed by Gensol as loans for procuring electric vehicles were utilised for buying a high-end apart ment in The Camellias, DLF Gurgoan, and other personal expenses such as purchasing of golf set, travel and shopping.

(₹ in lakhs except for Share data)

CONSOLIDATED

AARTI PHARMALABS LIMITED

Share

Certificate No.

836996

837282

832730

For Vedanta Limited

CIN: L24100GJ2019PLC110964 Registered Office: Plot No. 22/C/1 & 22/C/2, 1st Phase, GIDC Vapi- 396195, Valsad, Gujarat. Corporate Office: 204, Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund Goregaon Link Road, Mulund West, Mumbai- 400080, Maharashtra

Website: www.aartipharmalabs.com; Email: investorrelations@aartipharmalabs.com

STANDALONE

Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2025



the forensic auditor has been given six months by Sebi to submit its findings. Experts said that manpower crunch in these investigating agencies could be a trigger behind the joint probe.

On April 15, Sebi had issued an interim order that barred the promoters of Gensol Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi - from holding any key managerial positions in the company besides restraining them from dealing in the securities market over alleged involvement in fraudulent activities. In its order, Sebi said that Gensol attempted to mislead the agency, credit ratings companies (ICRA and CARE) lenders and investors by submitting forged conduct letters purportedly issued by its

Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of standalone & Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of financial results are available on BSE at www.bseindia.com and on company's website at www.ashikagroup.com

The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 10th May, 2025. The Statutory Auditors have carried out the Review for the quarter and year ended 31st March, 2025, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. as amended. The same can be accessed on the company's website by scanning the QR Code provided below :



For and on behalf of the Board of Directors For Ashika Credit Capital Ltd Sd / (Pawan Jain) Chairman

Place : Mumbai Date: 10.05.2025





No.	Faluculais	Quarter endeu		Teal enueu		Quarter ended		rear ended			
10.		31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24
1	Total Income from Operations (Net)	52,712	48,288	42,050	1,78,584	1,51,314	56,217	54,281	50,780	2,12,519	1,85,750
2	Net Profit /(Loss) for the period				(a)						
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,350	9,618	9,128	33,634	27,452	11,462	10,063	9,575	36,069	30,049
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax		-								
_	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,350	9,618	9,128	33,634	27,452	11,462	10,063	9,575	36,069	30,049
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax										
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,885	7,352	6,302	25,735	20,065	8,834	7,399	6,525	27,240	21,690
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising										
	Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other										
	Comprehensive Income (after tax)]	8,697	7,165	6,191	25,219	20,078	8,358	7,128	6,436	26,265	21,645
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 5/- each)	4,532	4,531	4,531	4,532	4,531	4,532	4,531	4,531	4,532	4,531
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		,		1,79,855	1,57,615				1,94,459	1,71,173
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each)										
	(for continuing and discontinued operations)										
5	1. Basic:	9.80	8.11	6.95	28.39	22.14	9.75	8.16	7.20	30.06	23.93
	2. Diluted:	9.80	8.11	6.95	28.38	22.14	9.74	8.16	7.20	30.04	23.93
Mat		10	10 I	0.	3. S	10	S				53 - B

Notes:-

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company i.e. www.aartipharmalabs.com

The above results for the quarter and year ended 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th May, 2025.


The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

The Company has identified only one segment i.e. Pharmaceuticals as reporting segment.


Place: Mumbai Date: 10th May, 2025



For AARTI PHARMALABS LIMITED Sd/-Hetal Gogri Gala Vice Chairperson & Managing Director DIN: 00005499











12 मई, 2025

		25-2			
पंज	निक्की ग्लोबल प CIN: L65999DL19 जी. कार्या.: 215, दिल्ली चैम्बर्स, दिल्ल फोनः 011-6 वेबः www.nikkiglobal.com, ई- 31 मार्च, 2025 को समाप्त लेखापरीक्षित	986PLC0244 ती गेट, नई 5400323 मेलः ngfltdo तिमाही औ	93 दिल्ली, दिल @rediffmail. र टार्ष के 1	ल्ली– 110002 com	फॉर्म संख्या. INC [कंपनी (निगमन) नियम, 2 के नियम 30 के अनुसरण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एव राज्य में बदलने के लिए समाचार पर किया जाने वाला विज्ञाप केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही⁄वर्ष	31 मार्च, 2025 तक वर्ष दर आंकड़े	मार्च, 2024 पूर्व वर्ष में समाप्त अनुरूप तिमाही	कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, उसरे पान, कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 20 के उप-नियम (5) के खंड (क) तथा
1.	प्रचालनों से कुल आय	0.04	14.41	0.02	ऑम कोरो टेक प्राइवेट लिर्ग
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄(हानि) (कर, स्वीकार्य और असाधारण मदों से पूर्व)	-5.31	-3.38	-4.39	U25920DL2023PTC422978 , कार्यालय एफ-10, फर्स्ट फ्लोर मॉडल टाउन उत्तर पश्चिम दिल्ली, भारत, 110009 में स्थिग
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण के बाद)	-5.31	-3.38	-4.39	एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता दिल्ली से हरियाणा राज्य में उसके पंजीव
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्धलाभ⁄ (हानि) (स्वीकार्य और असाधारण मदों के बाद)	-5.31	-3.38	-4.20	परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्ष 05.मई,2025 को आयोजित असाधारण 3 विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ⁄(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]		-3.38	-4.20	के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनिय 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरका करने का प्रस्ताव करती है।
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	341.97	341.97	341.97	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	0.00	-212.09	0	पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उ साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14वि
8.	10/- रु. प्रति के आय प्रति शेयर (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)				हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षे क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल पर्यावरण
	1. मूलः	-0.16	-0.10	-0.12	कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करे
-	2. तनुकृतः	-0.16	-0.10	-0.12	पंजीकृत डाक से भेजें
के वि	ण्णी: ए) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथ वेनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल	तिमाही/वार्षिक	वित्तीय परिणाम	गें के विस्तृत प्रारूप	याचिकाकर्ता की ओर से त ऑम कोरो टेक प्र
का र	सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण	विवरण शेयर	बाजार की वेबर	गईटों और सूचीबद्ध	सं
गानि	रिय गण ज्यालव्य हैं।	A. 1979			ित गांक 12 मर्च 2025

- 26 2014 में] एक राज्य से दसरे पत्र में प्रकाशित दिल्ली के समक्ष 13 की उप-धारा

014 के नियम 30 के मामले में नमिटेड (CIN जिसका पंजीकृत उन, मॉडल टाउन II थत है के मामले में ाता है कि रा.रा क्षेत्र नीकृत कार्यालय को क्षम बनाने के लिए आमसभा में पारित उम ऑफ एसोसिएशन नेयम, 2013 की धारा कार के पास आवेदन वित परिवर्तन से यवि उसके ऊपर वर्णित उसकी एक प्रति के 4दिनों के भीतर अपने

का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी रण भवन , सीजीओ **हरें या जमा कराएं** य

तथा उसके लिये प्राइवेट लिमिटेड हस्ता// पंजय चितलांगिया

दिनांक: 12 मई. 2025 निदेशक स्थानः दिल्ली (डीआईएन: 00564614) कृते निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड हस्ता/- राजेश कुमार पांडे (प्रबंध निदेशक) DIN :(09745776)

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 10.05.2025

प्रविष्टि पर उपलब्ध हैं।



(formerly known as Affle (India) Limited)

Registered Office | A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016 (P) 0124-4598749 (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, CIN: L65990DL1994PLC408172

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Amount in INID million, unloss otherwise stated)

Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Total income	6,211.61	5,334.89	23,600.73	19,000.15
Profit before exceptional items and tax	1,238.50	1,001.50	4,676.37	3,267.96
Net profit for the periods / years	1,030.65	874.91	3,818.69	2,972.63
Total comprehensive income for the periods / years	1,063.42	890.08	4,143.87	2,972.11
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	280.71	280.21	280.71	280.21
Other equity for the year		-	29,183.86	24,700.19
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	7.35	6.45	27.23	21.91
Diluted:	7.34	6.45	27.19	21.91

कब्जा सूचना

देश

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भूगतान औरध्या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता ∕ सह—उधारक र्ता ∕ गारंटर ⁄ बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक∕बकाया देय (रुपये में)	दिनांक⁄समय एवंकब्जे का प्रकार
1	30809420000192 30809800000011 30689420000312	1) श्री रशीद (आवेदक) 2) श्रीमती आशमा (सह–आवेदक)	दिनांक 13(2)% 19.02.2025 रु. 11,21,548 / – (रु. ग्यारह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) दिनांक 18.02.2025 तक	दिनांकः 07—05—2025 समयः 03:50 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति जिसमें अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल शामिल है – माप 50 वर्ग गज (41.80 वर्ग मीटर), खसरा नंबर–427, आशियाना सिटी, गांव–लोनी (चकबंदी क्षेत्र), परगना और तहसील–लोनी, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका स्वामित्व श्रीमती आशमा पत्नी श्री राशिद के पास है। सीमाः पूर्वः– रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिमः खाली प्लॉट, उत्तरः दसरे का प्लॉट, दक्षिणः खाली प्लॉट।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चूकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

थानः गाजियाबाद	हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी,
नांकः १२.०५.२०२५,	जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यूई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005



(सामुहिक रूप से, ''ऋणदाता'') की ओर से, अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय क्षमता (''चयनित'') वाले एक पात्र इकाई ("**बोली प्रक्रिया**") की पहचान के लिए एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. जो मूल रियायत की शेष अवधि के लिए रियायतग्राही को प्रतिस्थार्पित करने, शेष कार्यों को करने / निष्पादित करने और ऋणदालाओं के बकाया देय राशि के निपटान के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाले दस्तावेज ("बोली प्रक्रिया दस्तावेज") और रियायत समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनसार है। इस संबंध में, बोली प्रक्रिया / आकस्मिक मामलों के संबंध में उधारदाताओं को चलाह देने और बोली प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए बॉब कैपिटल मार्कट्स लिमिटेड ("BOBCAPS") को प्रक्रिया सलाहकार (''प्रक्रिया सलाहकार'') नियुक्त किया गया है ।

भारतीय स्टेट बैंक, ऋणवाताओं की ओर से, परियोजना में रियायतकर्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए, हणदाताओं और प्राधिकरण को स्वीकार्य हो सकने वाले. SBI और BOBCAPS (प्रत्येक ऐसी इकाई एक 'इच्छुक पक्ष'' हैं) द्वारा जारी बोली प्रक्रिया दस्तावेज (''ईओआई दस्तावेज'') में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक तकनीको और वित्तीय क्षमता रखने वाले इच्छुक बोलीदाता / बोलीदाताओं के संघ से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (''ईओआई'') आमंत्रित करता है। रियायतग्राही का प्रतिख्यापन उधारदाताओं और/या BOBCAPS के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जैसा है", "जो कुछ मी है" और "बिना किसी सहारे" के आधार पर है। परियोजना के संक्षिप्त विवरण, ईओआई और दस्तावेजों के प्रारूप और किसी भी अन्य जानकारी और अपडेट हे लिए, इज्ञकुक पक्ष भारतीय स्टेट बैंक (<u>https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-</u> notices/sarfaesi-and-others) और/या BOBCAPS (https://www.bobcaps.in/tenders/) की बिसाइटों का संदर्भ ले सकते हैं। प्रस्तादित लेगदेग के संबंध में आगे के अपडेट सहित बोली प्रक्रिया दरसायेज, ईओआई दरसावेज और/या बोली प्रक्रिया में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के लिए, कृपया नियमित आधार पर उपर्युक्त वेबसाइटों पर जाएं। कोई भी इच्छक पक्ष ई-मेल के माध्यम से projectroad@bobcaps.in और agm2others2.sarg@sbi.co.in पर हार्ड कॉपी के साथ ई-मेल के 2(दो) कार्य दिवसों के भीतर, हाथ से वेतरण, डाक या करियर (इच्छक पक्ष के जोखिम और लागत पर) द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में टांसक्रिप्ट के साथ – ''बिहार में सड़क परियोजना के उपक्रम रियायतकर्ता के प्रतिख्यापन के लिए अभिरुधि की अभिव्यक्ति' को ''के / ए – सहायक महाप्रबंधक, एएमटी 11 जीएम 111 (सेक्टर), तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समूह (एसएआरजी) भारतीय स्टेट बैंक, कॉपोरिट रोंटर, 21वीं मंजिल, ई विंग, मेकर टॉवर, कफ परेंड, मुंबई 400005'' को प्रस्तुत कर सकता है ।

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, HDFC BANK सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट),

मुम्बई-400013 और जिसका एक कार्यालय है: We understand your world रिटेल पोर्टफोलिओ प्रबंध, एचडीएफसी बैंक लि., 1 तल, I-थिंक टेक्नो कैम्पस, कंजूरमार्ग (ईस्ट), मुम्बई-400042

एचडीएफसी बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना तथा सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लि. (''बैंक') के नीचे वर्णित ऋणधारकों को एतद्वारा प्रतिभूतियों के लिये उनके द्वारा प्राप्त की गई ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में साख सुविधाओं के लिये बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संदर्भ में यह सूचना दी जा रही है।

ऋणदाताओं द्वारा ऋण/सुविधाओं की शर्तों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खातों को एनपीए (गैर–निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इन ऋणदाताओं को ऋण वापसी नोटिस जारी किया है. जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि पर अंतिम बिक्री नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत, बैंक ने गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को वापस ले लिया है तथा उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में बकाया सम्पूर्ण राशि चुकाने के लिए 7 दिन का समय दिया है, अन्यथा बैंक को इस संबंध में कोई और नोटिस जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने की स्वतंत्रता होगी।

ऋणधारकों ने बकाये राशि के पुनर्भुगतान की अनदेखी की तथा उसमें विफल रहे, अतः बैंक ने प्लेड्जी के रूप में ऋण अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक के प्रति ऋणधारकों की बकाया देयता की वसूली करने के लिये 20 मई 2025 को अथवा उसके बाद इन प्रतिभूतियों की बिक्री/निपटारा करने का निर्णय लिया है। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे इसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अनुपालन में बिक्री की सूचना मानें। उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय में मार्जिन की आवश्यकता में आगे न्यूनता का निर्माण करने के लिये स्टॉक मार्केट में उतार–चढ़ाव के कारण गिरवी प्रतिभूतियों का मूल्य पुनः कम होता है तो बैंक अपनी स्वेच्छा से इस संदर्भ में आगे कोई भी सूचना दिये बिना एक (1) कैलेण्डर दिवस के भीतर गिरवी रखी गई प्रतिभूति की बिक्री कर देगा। गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री की रकम को समायोजित करने के उपरांत यदि बैंक की कोई बकाया राशि शेष रहती है तो उसका पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के प्रति ऋणधारक की देयता कायम रहेगी।

संख्या	उधारकर्ता का नाम	08 मई 2025 तक बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
XXX2068	यतेन्द्र कुमार राणा	1,179.75	09.05.2025
	XXX2068	WWW20(0	राष्टि XXX2068 यतेन्द्र कुमार राणा 1,179.75

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड SHRIRAM सीआईएन नं.: L65191TN1979PLC007874 पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर, प्लॉट नं.14ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई— 600032, तमिलनाडु, प्रशासनिक कार्यालय : 6वीं मंजिल (लेवल 2), भवन सं. क्यू2 ऑरम क्यू पार्क, जनरल 4/1, टीटीसी, ठाणे बेलापुर रोड, घनर्साली, नवी मुंबई –400710 स्वर्ण ऋण नीलामी सूचना नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड(एसएफएल) से स्वर्ण आभूषणों("सुविधा")के एवज उनके द्वारा लिए गए ऋण हेतु उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं वूंकि उधारकर्ता इस सुविधा के तहत अपना बकाया चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए हम 22 मई 2025 (नीलामी की तारीख) को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करेंगे। इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि वसूल होने की स्थिति में, वह संबंधित उधारकर्तों को वापस कर दी जाएगी और यदि नीलामी के बाद घाटा होता है. तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। एसएफएल के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित में से किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अलावा एसएफएल के पास अप्रत्याशित घटना की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

पार्टी का नाम	ऋण संख्या	पार्टी का नाम	ऋण संख्या			
सोमदुत	CDGRNPJ2 404100001	पवन कुमार गौतम	CDGRNPJ24 06070001			
नीलामी गुड़गांव शाखा कार्यालय– 469/11 ओल्ड रेलवे रोड सुभाष नगर केनरा बैंक के पास गुड़गांव हरियाणा –122001 पर आयोजित की जाएगी। नीलामी समयः सुबह 11.30 बजे						

कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी समय सीमा अथवा किसी अन्य कारण से उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो नीलामी उसी नियम और शर्तों पर अगले कार्य दिवस पर जारी रहेगी। यदि ग्राहक की मृत्यू हो चूकी है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके कानूनी उत्तराधिकारी / यों पर लागू होंगी।

उपराज्यपाल ने पाक गोलाबारी में घायल लोगों से मुलाकात की जम्मू, 11 मई (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विभिन्न जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य की

जानकारी लेने के लिए रविवार को सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (जीएमसी) पहुंचे।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि चिकित्सकों की टीम ने अस्पताल में उपचार करा रहे जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों के घायल लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सिन्हा को जानकारी दी। उपराज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले उपराज्यपाल ने सेना के राइफलमैन सुनील कुमार को

यूएपीए मामले में दक्षिण कश्मीर के बीस स्थानों पर छापेमारी श्रीनगर, 11 मई (भाषा)।

श्रद्धांजलि अर्पित की।

जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआइए ने रविवार को 20 स्थानों पर छापेमारी कर युएपीए मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एसआइए ने दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में दक्षिण कश्मीर के जिलों में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि ये लोग आतंकवादी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल हैं और भारत विरोधी बयानों को प्रचारित कर आगे बढ़ा रहे हैं।

Notes :

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 10, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.

2. Key standalone financial information:

Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Total income	2,041.52	1,711.48	7,770.28	6,023.10
Net profit for the periods / years	308.35	236.94	1,154.94	759.57
Total comprehensive income for the periods / years	307.42	236.99	1,153.23	758.89

3. The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of stock exchange, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com. Scan the QR code below to view the results on the website of the Company.



By Order of the Board For Affle 3i Limited Sd/ Anuj Khanna Sohum

Chairperson, Managing Director & Chief Executive Officer

स्थानः मुम्बई

Place : Gurugram Date : May 10, 2025

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड RELIANCE पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल उत्तर की ओर, आर–टेक पार्क, निरलॉन नॉलेज पार्क, पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063 ASSET RECONSTRUCTION

सुरक्षित परिसंपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), "आरएआरसी 068 ट्रस्ट" का एक ट्रस्टी, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ दिनांक 30.03.2022 को निष्पादित असाइनमेंट एग्रीमेंट के आधार पर नीचे उल्लिखित उधारकर्ता का एक असाइनी और एक सुरक्षित लेनदार है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आम जनता को यह सूचित करते हैं कि बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित संपत्ति को "ऑनलाइन ई—नीलामी'' के माध्यम से बेचा जाएगा। संपत्तियों को नीचे उल्लिखित अन्य शर्तों के अलावा सख्ती से ''जहां है, वहीं'', ''जो है, वहीं'' और ''कोई सहारा नहीं'' के आधार पर बेचा जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटरओं का नाम	दिनांक 05.052025 तक बकाया राशि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि
 मेसर्स श्री जी एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) पताः – निवासी एल – 1194, शास्त्री नगर, मेरठ, यूपी – 250002। श्री रवि गोयल, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार गोयल (मालिक/बंधककर्ता) पताः – निवासी 364/5, नेहरू नगर, गढ़ रोड, मेरठ, यूपी – 250002। 	लाख छिहत्तर हजार नौ सौ छिहत्तर रुपये	09.07.2024
अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
खसरा संख्या 706, गांव — पलवाड़ा, तहसील — गढ़ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में स्थित आवासीय भूखंड के सभी हिस्से पर ई.एम., जिसका क्षेत्रफल 854.68 वर्ग मीटर या 1022.23 वर्ग गज है। श्री रवि गोयल पुत्र श्री राजेंद्र कुमार गोयल द्वारा।	(बावन लाख रुपये मात्र)	रु. 5,20,000 ∕ − (पांच लाख बीस हजार रुपये मात्र)

संपत्ति का निरीक्षण दिनांकः 30.05.2025 प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक • बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 02.06.2025 ई—नीलामी की तिथिः 12.06.2025 अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार के साथ)

ई—नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें

1. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा और बिक्री सुरक्षित लेनदार के रूप में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी) द्वारा पुष्टि के अधीन है। संपत्तियों को सख्ती से ''जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है जैसा है" और ''कोई सहारा नहीं'' के आधार पर बेचा जाएगा। 2. ई—नीलामी आरएआरसी के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स एआरसीए ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://www.Auctionbazaar.com (एआरसीए ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल) पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों के साथ ऑनलाइन ई–नीलामी बोली फॉर्म वाले ई–नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइटों: www.rarcl.com और https://www.Auctionbazaar.com पर उपलब्ध हैं। इच्छक बोलीदाता संबंधित दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

3. इच्छक बोलीदाताओं के पास एक वैध ईमेल आईडी होना आवश्यक है क्योंकि ई–नीलामी एजेंसी द्वारा भागीदारी आईडी और पासवर्ड केवल उनके ईमेल आईडी पर ही सूचित किया जाएगा।

-	बीओबी कैपिटल मार्केंट्स लिमिटेड			
(Wholly owned subsidiary of Bank of Barada)	पजाकृत क सी-38/39		ग मंजिल, पेरिनी क्रेसेन्जो, प्लॉट न प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400 061 3009	
केसी भी स्पष्टीकरण के ति	तेए कृमया नि	ोग्नलिखित से संपर्क करें		
संपर्क व्यक्ति		फोन नं.	ईमेल आईडीः	
श्री विनय तिवरेवाल (BOBCAPS)		+919820146186	projectroad@bobcaps.in	
सुधी मैत्री शेठ (BOBCAPS)		+919867939303	- For all and an account of the second secon	
मोर / या किसी चयनित थ्यक्ति) में नहीं जाएगा। एलमीआई. ऋ प्रदने / यार्थिक करने, बोली प्रवि मेर / या बोली प्रक्रिया या उसन केली भी बार्त को बदलने का अ	का चयन करने गवाता और B प्र्या के किसी न के किसी नाग न विकार सुरक्षित	के लिए किसी प्रकार की प्रतिबंध OBCAPS बोली प्रक्रिया या जर नी घरण में किसी / सभी ईओआ तो संशोधित करने या बिना कोई रखते हैं। यह कोई प्रस्ताव दस्त	IPS की ओर से बोली प्रक्रिया को पूरा कर इसा का गतन नहीं करता है और ऐसा भा तक किसी भाग को चापस लेने / निलंधि ई प्रस्तावों को स्वीकार था अस्वीकार कर कारण बताए, बिना किसी उत्तरदावित्व गवेज नहीं है बोली प्रक्रिया दस्तावेज जा (APC 100 जानिक वालि का जाना के	

के लिए बाध्य है। एसकीआई और/या ऋणदाला और/वा BOBCAPS किसी भी तरह से बोलीदालाओं/हिंत प्रदक्षि डारा यहां और / या बोली प्रक्रिया दस्सावेज में परिकल्पित लेनदेन के संबंध में किए पए किसी भी लागत और व्यय के लिए लररदायी नहीं होंगे। यह विद्वापन बोली प्रक्रिया दस्तावेज में निर्दिष्ट अस्वीकरण और सीमा के अधीन है। विनांक: मई 12, 2025

0 सवारी डिब्बा कारखाना

निविदा सूचना सं. आईसीएफ/पीसीएमएम/ईओटी/19/2025 दिनांक: 09.05.2025 निम्नलिखित ई—निविदाएं आईआरईपीएस वेबसाइट में प्रकाशित की गई हैं। फर्मों से निवेदन है कि ये www.ireps.gov.in में लॉग—इन करें और इन निविदाओं के लिए कोट करें। इन निविदाओं के लिए मैनुअल कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। सभी निविदाओं को बंद करने और खोलने का समय 14.15 बजे है।

क्रम सं,	निविदा सं.	निविदा शीर्षक	मात्रा	नियत तिथि / समय
01	01241111	वाशर	आईआरईपीएस साइट देखें।	23/05/2025
02	06251817	स्पाउट 2 वे फलेक्सी कन्बुइट एनडब्ल्यू17	115662 नग	23/05/2025
03	07250103	लगेज रूम अरेंजमेंट — एलडब्ल्यूएलआरआरएम का एसएडआई	313 सेट	27/05/2025
04	07251793	एलडब्ल्यूएस एफएलआर बोर्ड एचएल3 16x851x3075	2000 नग	27/05/2025
05	03251319	एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बोगी हेतु कम्प्लीट ट्रान्सॉम	383 नग	28/05/2025
06	02242315	स्पिक हेतु बॉडी साइड डोर का एसएंडआई	1170 जोड़ी	28/05/2025
07	03251029	यूएनएफ लोंगी स्टॉप ऐंड प्लेट एस्सले	11169 नग	29/05/2025
08	02251285	रूफ असेंबली एलडब्ल्यूएफएसी	71 सेट	30/05/2025
09	02251187	स्पिक हेतु बॉढी साइड डोर का एसएंडआई	933 जोड़ी	02/06/2025
10	02251288	रूफ एलएससीजेड पर वेल्डिंग पार्ट्स	110 सेट	02/06/2025
11	04251026	पहिया एवं घुरा हेतु पेंटिंग स्कीम की आपूर्ति एवं एप्लीकेशन	1097 नग	02/06/2025
12	02251311	बॉडी शेल आइटम्स ईएमयू सी	28 सेट	03/06/2025
13	01255135	रेखांकन संख्या आईसीएफ/जेएंडटी/ एमआईएससी–2956.पी हेतु हैंड होल्ड्स के लिए पैलेट	90 नग	04/06/2025
14	02251299	रूफ असेंबली एलडब्ल्यूएससीएन अमृत भारत	223 सेट	04/06/2025
15	02251324	सोल बार एलडब्ल्यूएससीडब्ल्यूएसी	992 सेट	06/06/2025
16	02242173	इमरजेंसी फुट स्टेप	1256 नग	06/06/2025
17	02250022	बॉडी साइड प्रवेश द्वार का एसएंडआई	3752 जोड़ी	06/06/2025
18	02251245	रूफ, 2एमएम साइड वाल और ऐंड वाल एलडब्ल्यूएससीजेड	48 सेट	17/06/2025
19	02251310	एलडब्ल्यूएफएसी हेतु बॉडी शेल आइटम्स का एसएंडआई	51 सेट	20/06/2025
20	02251320	ट्रफ फ्लोर का कोच सेट (नालीदार शीट)	152 सेट	24/06/2025
21	02251314	रूफ फलैंज और कारलाइन कम्प्लीट एलएसीसीडब्ल्यू	138 सेट	25/06/2025
22	02250048	एलएसीसीएन फ्रेम वर्क, वेल्डिंग पार्ट्स एवं कारलाइन	257 सेट	26/06/2025
23	02251303	क्रेम वर्क - एलएसीसीडब्ल्यू का विवरण	131 सेट	26/06/2025
24	02251358	एलएससीएन, एलएसीसीडब्ल्यू, एलएसीसीएन हेतु कनेक्शन शीट	475 सेट	26/06/2025
	विस्तृत	<u>शुद्धि—पत्र सं. 15</u> म्नलिखित निविदा हेतु शुद्धि—पत्र जारी विवरण के लिए कृपया आईआरईपीएस		रखें ।
क्र. सं.	निविदा सं.	वर्तमान तिथि	संशोधित	303372-5
1	05251459			
2	06252230		16/05/20	
3	06241655	विवरण एवं रेखांकन को संशोधित कि		ाईआरईपीएस
5	02251199	वेबसाइट में ब्योरे के लिए कृपया नि विवरण एवं रेखांकन को संशोधित कि वेबसाइट में ब्योरे के लिए कृपया नि	ज्या गया है। अ	ाईआरईपीएस
6	07251836	तकतीकी अनगावन में संगोधन किर	ग गया है। आः	(आरईपीएस

अधिक जानकारी, नियम और शर्तों तथा नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकृत होने के लिए, इच्छूक खरीदार दीपक कुमार शर्मा एसएफएल. 9729220525 से संपर्क कर सकते हैं। हस्ता /-

दिनांकः 12.05.2025	श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड, नीलामी
स्थान : गुड़गांव	श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ए-603. लॉजिक्स टेक्नीवा, सेक्टर-132. नोएडा, उत्तर प्रवेश- 201306 सीआईएन : L29120UP1987PLC091016; फोन : +91-9910616750 इंमेल : neerajgupta@leelelectric.com, येबसाइट : www.leelelectric.com 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(राशि लाख में) 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीब्रित वित्तीय परिणामों का विवरण					
विकरण	त्तमाप्त विमाडी 31.03.2025	सम्पाप्त रिमाही 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024	
	(लेखापरीकित)	(लेखापरीवित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीबिर)	
परिचालनों से कुल आय (निवल)	1.25		1.25		
अवधि हेनु निवल लाभ / (डानि) (कर, आपवादिक एव / अथवा असाधारण मदी से पूर्व)	(70.44)		(86.86)		
कल पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ 🗡 (हानि) (आपवादिक एवं 🗡 अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(70.44)		(86.86)		
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम / (हानि) (आपवादिक एव / अध्या असाजारण मदी के उपरांत)	(70.44)		(86.86)		
कुल व्यापक आय रकर जपरांत लाम/(हानि) तथा कर उपरांत अन्य व्यापक आय से समाविष्ट,	(70.44)		(86.86)		
समसा अस पूजी			-		
आर्थक्षीयाँ (पुनर्मूल्यॉंकन आरक्षित घोढकर), पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित सुलन–पत्र में निदर्शितानुसार)				2	
आय प्रति समता अश (म. 10,7 – प्रत्येक का) (परिवालगरह तथा अपरिवालनकारी परिवालनों के लिए) क) मूलमूध ख) तरतीकृत					

टिषणिवाँ

दिनाँक : 10-05-2028

स्थान ः नोएडा

हस्ता/-

प्राधिकृत अधिकारी

कुले भारतीय स्टेट बैंक

1.उपयोक्त परिणम को 10 मई 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित किया गया था। 2.वपरोक्त परिणाम, सेन्नी (सुनीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विभियमावली 2015 के विभियम 33 के अंतर्गत स्टोंक एक्सचेंज के पास फाइलबड़ 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमापि एवं वर्ष के लेखापरीक्षित एकल वितीय परिणामों के जिस्तुत प्रारूप का एक सार्रोंश हैं।

a लेखापरीजिता यार्थिक। वितीय परिणामां का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंचा वेबसाइट (www.bscindia.com) पर एवं कंपनी की वेबसाइट (www.leelelectric.com) पर उपलब्ध है।), उपरोक्त विलीय विवरणों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति हाना की गई की तथा +D मई 2025 को करंगी के म

निवेशक गंडल द्वारा इनका अनुमेदन किया गया है। लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में कोई भी योग्यता 🗸 संशोधन नहीं है।

	निवेशक मंडल हेतु तथा उसकी और
	लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटे
	हस्ताः /
5	(नीरज मुप्त
	प्रबंध निदेश
	कीआईएन : 0717806





व्यक्तिगत

Neha Wife Of Krishna Pratap Khare Resident Of House N. 118, Kayasthpura, Mahroni, Dist- Lalitpur, uttar Pradesh, 284405 Have Changed My Name From Neha To Neha Shrivastava Vide Affidavit Dtd 05 May 2025 Before Govt Of Nct Delhi. have changed my name to Neha Shrivastava.

0040787978-

I, Kevla Devi, mother of No 14876948H Hav/Clk(SD) Late Ritesh Kumar resident at Vill + post -Bhadiyan, Teh - Pupri, Distt - Sitamarhi, State - Bihar have changed my name from Kevla Devi toKewala Devi vide affidavit dated 05 May 2025 before SDM, Pupri, Distt -Sitamarhi, Bihar.

0040788056-1

I Urmila Devi D/O, Late Omkar Dutt R/o D-23, Jhenda Colony, Asola Fatehpur Beri, New Delhi 110074 have changed my name to Urmila Devi Urf Suresh Wati.

0040787980-1

I. Balvinder Pal Bhatia S/o Shri Pal Bhatia R/o 58, Rameshwar Nagar, Azadpur, Delhi – 110033,That I have changed my name from Balvinder Bhatia to Balvinder Pal Bhatia for all purpose in Future.

- इच्छक बोलीदाताओं को निर्धारित प्रारूप में अपनी बोली जमा करानी होगी, जिसमें ईएमडी जमा करने का विवरण और स्व–सत्यापित केवाईसी दस्तावेज (पैन, आधार कार्ड आदि) शामिल होंगे। इसे रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी को 11वीं मंजिल, उत्तर की ओर, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063 पर जमा करना होगा। साथ ही, ईमेल के माध्यम से भी इसे Narendra.r.shukla@relianceada.com और himanshu.vadav@relianceada.com पर भेजना होगा। इसके बाद भागीदारी आईडी और पासवर्ड केवल उनके ईमेल पर ही भेजा जाएगा। बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11.06.2025 है। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोली फॉर्म या ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना ईएमडी वाली बोली और आरक्षित मूल्य से कम वाली बोली को तूरंत खारिज कर दिया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं के पक्ष में जारी किया जाएगा और हम नए बोलीदाता/बोलीदाताओं को जोडने या बदलने पर विचार नहीं करेंगे। नेटवर्क व्यवधान के कारण बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक∕विफलता के लिए न तो आरएआरसी और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होंगे। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, बोलीदाताओं को वैकल्पिक बिजली बैक–अप आदि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। सभी बोलीदाताओं को आईबीसी, 2016 की धारा 29(ए) के तहत वचनबद्धता का अनुपालन करना आवश्यक है।
- बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस∕एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से चालू खाता संख्याः 040211010000004 में जमा की जाएगी, बैंक का नामः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखाः मुंबई, लाभार्थी का नामः "रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड", आईएफएससी कोडः यूबीआईएन0590070। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आरक्षित मूल्य से कम और∕या ईएमडी राशि के बिना बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाता अपनी बोली राशि को 1,00,000∕− रुपये (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में बढ़ा सकते हैं, बोलीदाता को अपनी बोली में न्यूनतम एक वृद्धि करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को बोली राशिधबिक्री मल्य का 25: (पहले से भगतान की गई बयाना राशि सहित) सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद भगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को बोली राशिधबिक्री मूल्य का शेष 75ः सफल बोलीदाता की घोषणा से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
- 10. यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है, तो ईएमडी सहित सभी जमा राशि बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त मानी जाएगी। हालांकि, शेष 75ः का भुगतान करने के लिए आगे उचित अवधि का विस्तार दिया जा सकता है और यह प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर होगा।
- 11. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि ई—नीलामी बिक्री कार्यवाही के समापन के बाद ब्याज के बिना वापस कर दी जाएगी।
- 12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रूटि, गलत बयान या चूक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 13. नीचे हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / स्थगित / रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना या कोई कारण बताए बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक है।
- 4. बोलीदाताओं को संपत्ति पर लगने वाले शुल्क/भार के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति के शीर्षक सीमा, गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद संपत्ति पर लगने वाले शुल्क, भार और किसी अन्य मामले आदि के बारे में किसी भी तरह का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा
- 15. संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी⁄पंजीकरण शुल्क सहित कोई भी बकाया, बकाया, कर, शुल्क, चाहे वैधानिक हो या अन्य, केवल खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा
- 16. अधिक जानकारी के लिए, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के श्री अक्षय राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष—कानूनी, मोबाइल नंबर 9136763354 और श्री नरेंद्र शुक्ला, एवीपी— रिजॉल्यूशन, मोबाइल नंबर 9321339065 और श्री चिन्मय देशपांडे, कानूनी, मोबाइल नंबर 8291763353 से ऊपर बताए गए पते पर संपर्क करें।
- 17. बिक्री प्रमाणपत्र पूरी बिक्री राशि प्राप्त होने और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पृष्टि के बाद जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने वाले/ई–नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाणपत्र में नाम परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह नोटिस सरफेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 30 दिनों का नोटिस भी होगा प्राधिकत अधिकारी स्थानः हापूर दिनांक: 12.05.2025

रिलायंस	एसेट	रिकंस्ट्रक्शन	कंपनी	लिमिटेड	के	বি

0040787975-

I, Bhavna W/O Shri Rajeev Kumar R/O D-15/70, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have Changed my name to Bhavna Gautam.

0040788036-2

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

epaper.jansatta.com

